



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

11/12/01

सं० 51]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 2001 (पौष 1, 1923)

No. 51]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22, 2001 (PAUSA 1, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय

बड़ौदा, दिनांक 9 नवम्बर 2001

सं. एचओ/असेविएच/औसैं/27/107/1971--बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) को धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ़ बड़ौदा का निदेशक मण्डल भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से बैंक ऑफ़ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 में संशोधन करने के लिए, एतद् द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है नामतः

1 (i) इन विनियमों को बैंक ऑफ़ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम 2001 कहा जा सकेगा,

(ii) ये विनियम राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 में विनियम 20 के उप नियम (4) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः

“(4) प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर खरीदी गई या ली गई चल संपत्ति से संबंधित प्रत्येक ऐसे संव्यवहार को सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, यदि ऐसी चल संपत्ति का मूल्य रु. 25000/- से अधिक है।

परंतु सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त करनी होगी यदि ऐसा संव्यवहार--

- (क) ऐसे किसी व्यक्ति के साथ है जिसका अधिकारी कर्मचारी के साथ आधिकारिक संव्यवहार हो; या
- (ख) किसी नियमित या प्रतिष्ठित विक्रेता के अलावा किसी के साथ हो।

गुरुदास चक्रवर्ती
महाप्रबंधक (मासंप्र)

केन्द्रीय भंडारण निगम
“वेअरहाउसिंग भवन”

नई दिल्ली-110016, दिनांक 6 दिसम्बर 2001

सं. सी.डब्ल्यू.सी./III-36/ईडीबी/बी.एंड सी.--केन्द्रीय भंडारण निगम, 1963 के नियम 13 के अनुसरण में वेअरहाउसिंग कारपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 7 की उप-धारा (I) के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट वर्ग के अंशधारियों में से 19.11.2001 से दो वर्ष की अवधि के लिए नामित निदेशक का नाम और पता नीचे अधिसूचित किया जाता है :

अंशधारियों का वर्ग	निदेशक का नाम और पता
अन्य अधिसूचित बैंक	श्री ए. एस. खुराना महा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, 3, वालचंद हीराचंद मार्ग, बेलार्ड पायर मुंबई-400001।

एस. सी. बतरा
सचिव
केन्द्रीय भंडारण निगम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली-110002, दिनांक अक्टूबर 2001

सं. एफ1-52/2000(सी.पी.पी.-II)--17 जून, 1972 तक आर्शोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) की धारा 22 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा गजट अधिसूचना सं. एफ 87-92/58 (सी यू पी) दिनांक 1-12-58 एफ 33-72/59 (सी यू पी) दिनांक 17-11-1960, एफ 33-87/63 (सी यू पी) दिनांक 6-6-1964, एफ 33-87/69 (सी यू पी) दिनांक 27-4-1966 और एफ 1-59/66 (सी डी एन) दिनांक 18-6-1968, एफ 1-59/66 (सी डी एन) दिनांक 17-2-1969, एफ 1-59/66 (सी डी एन) दिनांक 22-12-1969, एफ 1-59/66 (सी डी एन) दिनांक 26-2-1971, एफ 1-59/66 (सी डी एन) दिनांक 15-11-1973, एफ 1-59/66 (सी डी एन) दिनांक 18-7-1975 तथा एफ 1-57/97 (सी पी पी II) दिनांक 13-10-1999 के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद् द्वारा उपर्युक्त धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त डिग्रियों का विनिर्देश करता है।

क्र. सं.	डिग्रियों के लिए प्रयुक्त संकेताक्षर	डिग्रियों के संकेताक्षरों का विस्तार
1.	बी.पी.ए.	बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स
2.	एम.पी.ए.	मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स

डा. जी. जी. दण्डपाट
सचिव

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

16/77 बी, सिविल लाइन्स,

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

कानपुर-208001 15 NOV 2001

3 सी.सी.ए (4) (1)/2001-2002 चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1(क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनके आगे दी गई तिथियों से हटा दिया गया है।

क्र. सं०	सदस्यता नाम व पता	दिनांक	क्र. सं०	सदस्यता नाम व पता	दिनांक
1	000470 मि. खोसला बलराम अनुकम्पा- II एम.आई.रोड जयपुर-302001	11/01/2001	7.	071792 मि. एस. के. जैन रॉची मेटल सप्लाय बिल्डिंग एस. एन. गांगुली रोड रॉची-834001	12/02/2001
2.	016351 मि. अमर चन्द गुप्ता आर एस. मेडिकोस जी. एस. नं. 2 गवर्नमेंट कनवटिया हासिपिटल कृष्णा नर्सिंगहोम के पीछे शास्त्री नगर जयपुर - 302001	27/04/2000	8.	071969 मि. दानी ओम प्रकाश सौभाग क्लब सिविल लाइन्स अजमेर-305001	31/07/2001
3.	030952 मि. शरद मल जी मोमाया सन्तोष बिल्डिंग, डा. सूर्य क्लीनिक स्टेशन रोड के पीछे केलकापारा रायपुर-492009	07/08/2001	9.	074498 मि. बोहरा राज कृष्ण जगन मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स प्रा० लि० एन. एच. बी. गन्जोल नाथवाड़ा-313301	12/05/2001
4.	052606 मि. शर्मा शिव रतन पानी टंकी रोड पो. आ. झुमरी तलैया कोदरमा-825409	19/09/2000	10.	076381 मि. लाल राजेश कुमार डी-11/4 आदित्य सीमेन्ट चित्तौड़गढ़-312612	17/11/2000
5.	070160 मि. अग्रवाल राजेन्द्र कुमार 100 ब्रह्मपुरी मोदीनगर-201204	10/03/2001	11	079416 मि. गुप्ता अशोक पुत्र श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता 21/1 बैंक कालोनी नजर बाग रतलाम-457001	27/01/2001
6.	070232 मि. पटेल जग नारायण 28 गुरुकुल कामप्लेस कालीबाडी चौक रायपुर-492001	07/06/2001			

(हस्ताक्षर)
(डा० अशोक हल्दिया)
सचिव

BANK OF BARODA

HEAD OFFICE

Baroda, the 09th November 2001

No HO OSR&IR 27/107/1971—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Bank of Baroda in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend the Bank of Baroda Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976 namely —

1 (i) These Regulations may be called the Bank of Baroda Officer Employees' (Conduct) Amendment Regulations, 2001.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the "Official Gazette"

2 In the Bank of Baroda Officer Employees' (Conduct) Regulations 1976, in regulation 20, for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely —

"(4) Every Officer employee shall report to the Competent Authority every transaction concerning movable property owned or held by him either in his name or in the name of a member of his family if the value of such a property exceeds Rs 25,000/-.

Provided that the previous sanction of the competent authority shall be obtained if any such transaction is—

(a) with a person having official dealings with the Officer employee, or

(b) otherwise than through a regular or reputed dealer"

GURUDAS CHAKRABARTY
General Manager (HRM)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A GOVT OF INDIA UNDERTAKING)

New Delhi-110016, the 6th December 2001

No CWC/III-36/EDB/B&C—In pursuance of Rule 13 of the Central Warehousing Corporations Rules, 1963, the name and address of the Director nominated for a period of two years w.e.f. 19.11.2001 from the class of shareholders specified in clause (d) of sub-section 1 of Section 7 of Warehousing Corporations Act, 1962, is notified as under —

Class of Shareholders	Name & Address of the Director
Other Scheduled Banks	Sh A S Khurana General Manager Bank of Baroda 3, Walchand Hirachand Marg, Ballard Pier, Mumbai-400 001

S C BATRA

Secretary

Central Warehousing Corporation

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

New Delhi-110002, the October 2001

No. F 1-52/2000(CPP-II)—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 22 of the UGC Act, 1956 (3 of 1956) as modified up to 17th June, 1972 and in continuation of Gazette Notification No. F. 87-92/58 (CUP) dated 1.12.58, F. 33-72/59 (CUP) dated 17.11.1960, F. 33-87/63 (CUP) dated 6.6.1964, F. 33-87/69 (CUP) dated 27.4.1966 and F. 1-59/66 (CDN) dated 18.6.1968, F. 1-59/66 (CDN) dated 17.2.1969, F. 1-59/66 (CDN) dated 22.12.1969, F. 1-59/66 (CDN) dated 26.2.1971, F. 1-59/66 (CDN) dated 15.11.1973, F. 1-59/66 (CDN) dated 18.7.1975 and F. 1-52/97 (CPP-II) dated 13th October, 1999, the University Grants Commission with the approval of the Central Govt. hereby specifies the following additional degrees for the purposes of the said section

S No	Abbreviations of degrees	Expansion of degrees
1	B P A	Bachelor of Performing Arts
2	M P A	Master of Performing Arts.

DR G G. DANDAPAT
Secretary

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
16/77 B, Civil Lines.

(Chartered Accountants) Kanpur - 208 001 **15 NOV 2001**

3CCA (4)(1)/2001-2002. In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, It is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of Death with effect from date(s) mentioned against the names of the following members :-

S. No.	MRN	Member Name & Address	Removal Dt
1.	000470	Mr KHOSLA BAL RAM ANUKAMPA-II M.I. ROAD JAIPUR - 302001	11/01/2001
2.	016351	Mr. AMAR CHAND GUPTA C/O R. S. MEDICOSE G.S. NO. 2 GOVT. KANWATIYA HOSPITAL OPP KRISHNA NURSING HOME SHASTRI NAGAR JAIPUR-302001	27/04/2000
3.	030952	Mr. SHARAD MULJI MOMAYA SANTOSH BUILDING, BEHIND DR. SUR'S CLINIC STATION ROAD, KELKARPARA RAIPUR-492009	07/08/2001
4.	052606	MR. SHARMA SHIO RATAN PANI TANKI ROAD PO JHUMRI TELAIYA KODERMA-825409	11/09/2000
5.	070160	MR. AGARWAL RAJENDRA KUMAR 100 BRAHMPURI MODINAGAR - 201204	10/05/2001
6.	070232	MR. PATEL JAG NARAYAN 28 GURUKUL COMPLEX KALIBADI CHOWK RAIPUR-492001	07/06/2001
7.	071792	MR S. K. JAIN RANCHI METAL SUPPLY BUILDING S. N. GANGULY ROAD RANCHI-834001	12/07/2001
8.	071969	MR. DANI OM PRAKASH SOBHAG CLUB CIVIL LINES AJMER-305001	31/07/2001

S. No	MRN	Member Name & Address	Removal Dt
9.	074498	Mr MR BOHRA RAJ KRISHAN JAGAN MARBLES & GRANITES PVT.LTD. N. H. B. GUNJOL NATHDWARA-313301	12/05/2001
10	076381	Mr LAL RAJESH KUMAR D-11/4 ADITYA CEMENT ADITYA CEMENT CHITTORGARH-312612	17/11/2000
11	079416	Mr GUPTA ASHOK S/O SH PREM PRAKASH GUPTA 21/1, BANK COLONY NAZAR BAGH RATLAM-457001	27/01/2001

A. Ashok

(Dr. ASHOK HADIA)
SECRETARY

EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION
REGIONAL OFFICE, ORISSA

Bhubaneswar-751 001

CORRIGENDUM

In the notification published at Page No. 2770 of the Gazette of India, dated 5.5.2001 regarding reconstitution of Local Committee for Aska area, the word "Sub Collector, Berhampur, Ganjam" occurring in line 1 under Regulation 10-A-(1) (a) may be read as "Sub Collector, Bhanjanagar"

M. RAMA RAO
Regional Director

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2001

